



भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र
डी.आर.डी.ओ कॉम्प्लेक्स, सी वी रामन नगर, बेंगलूरु- 560093
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION
CENTRE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
DRDO Complex, CV Raman Nagar, Bengaluru- 560093



6 माह की पेड इंटरशिप हेतु विज्ञापन / Advertisement for 6 months Paid Internship

(Duration of Internship is 6 months: 01 July to 31 December 2026)

कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केंद्र (केयर) डी.आर.डी.ओ. की शीर्षस्थ प्रयोगशाला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिकी, कमांड एवं नियंत्रण, सूचना व संचार सुरक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों में कार्यरत है, जिसके परिणामस्वरूप युद्धक्षेत्र में सुरक्षित संचार एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए मिशन महत्वपूर्ण उत्पाद विकसित हो रहे हैं।

Centre for Artificial Intelligence and Robotics (CAIR) is a premier laboratory of DRDO involved in Research and Development in the areas of Artificial Intelligence, Robotics, Command and Control, Information and Communication Security leading to development of Mission Critical products for Battlefield secure communication and information management systems.

Applications are invited from bright and young students pursuing B.E./B.Tech (final year) for a 6-month Internship to work in research areas of national importance.

इंटरशिप विवरण / Internship Details

क्र.सं.	इंटरशिप विषय / Area of Internship	आवश्यक योग्यता / Essential Qualification	रिक्ति संख्या/ No of Vacancies
1.	Computer Science/Computer Engineering/Information Technology/Information Science/ AI-ML / Equivalent Subjects	B.E./B.Tech. (Final Year) Computer Science/Information Technology/Information Science/AI-ML/ Equivalent Subjects (Ongoing) with First Division.	44 (Forty Four)
2.	Electronics & Communication/ Electronics Engineering/ Electrical and Electronics Engineering / equivalent Subjects	B.E./B.Tech. (Final Year) Electronics & Communication / Equivalent Subjects (Ongoing) with First Division.	6 (Six)

कार्यकाल / Duration: 6 महीने (6 Months)

कार्य स्थल / Place of Internship:

कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र
भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
डी.आर.डी.ओ कॉम्प्लेक्स, सी वी रामन नगर,
बेंगलूरु- 560093

CENTRE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION
DRDO Complex, CV Raman Nagar,
Bengaluru- 560093

मासिक बज्जीफा / **Monthly Stipend for paid internship:** ₹5,000/- प्रति माह (Fixed) / Rs. 5,000/- per month (Fixed)

चयन प्रक्रिया / **Selection Process :**

Selection will be based on a weighted scoring of 10th (Physics & Maths), 12th (Physics & Maths)/Diploma and Semester Percentages of B.Tech/BE. A weightage of 10% will be given for 10th and a weightage of 15% will be given for 12th/Diploma Final Semester marks. Further, the scoring during the successful semesters completed in B.Tech/BE will be given 75% weightage.

Interviews will be conducted if necessary for shortlisted candidates.

महत्वपूर्ण जानकारी / **Important Notes**

- यह इंटर्नशिप पूर्णतः अस्थायी है और इसमें DRDO में समायोजन का कोई अधिकार नहीं है।
The internship is purely temporary and does not confer any right for absorption in DRDO.

- इंटर्नशिप की संख्या प्रयोगशाला की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
Number of internships may vary depending on the lab's requirements.

- रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर पूर्णतः भरा हुआ आवेदन **ad-hrt.cair@gov.in** पर भेजना अनिवार्य है।

Duly filled application form must reach **ad-hrt.cair@gov.in**, within 15 days from the date of publication of this advertisement with subject as "**Application for Internship - May 2026**". Format of application is published along with this advertisement.

General terms and conditions for Paid Internship:

- a) The candidates offered internship under the Paid Internship Scheme for a duration of 6 months will be eligible to receive a stipend of Rs.5000/- per month through electronic transfer.
- b) The stipend of the entire duration of Paid Internship will be paid through electronic transfer in two equal installments i.e. 15000/- after the completion of 3 months and 15000/- after the completion of 6 months of the internship. Any other expenditure such as lodging, boarding, transport, medical etc. if any shall be borne by the individual concerned during the entire course of the internship.
- c) There is no provision for grant of stipend beyond 6 months in the Paid Internship scheme.
- d) The internship will be provided in fields relevant to DRDO's research.
- e) Interested candidates need to apply through their respective institutes to CAIR at the published e-mail address.
- f) Considering the nature of work of DRDO, the interns would be liable to the provisions of the Indian Official Secrets Act, 1923 and rules and regulations of CAIR / DRDO.
- g) Failure to comply with the rules and regulations of laboratory or any breach of the Security Act, will be grounds for termination of the internship without any notice.

- h) Candidates need to handle the equipment (computer etc.) provided by CAIR/DRDO carefully. Else, they will be liable to compensate CAIR/DRDO for any damage or degradation of the equipment.
- i) The candidate shall not disclose or publish any information on any platform like newspapers, periodicals, social media, visual media etc. related to any subject of DRDO, which is restricted or confidential in nature. Necessary action as per Official Secrets act and applicable rules and regulations of DRDO will be taken if such disclosures come into notice. An undertaking in this regard will be sought from the candidate.
- j) Attendance will be marked by the candidates as per the lab's process. Working hours will be as per the laboratory's working hours.
- k) No leave except Sick leave on the production of valid prescriptions will be given to the candidates. Closed Holidays as applicable to CAIR will also be applicable to the candidates.
- l) Completion of the internship does not guarantee employment at CAIR/DRDO.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / Senior Administrative Officer
कृते निदेशक / For Director



भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
 कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिकी केन्द्र
 डी.आर.डी.ओ कॉम्प्लेक्स, सी वी रामन नगर, बेंगलूरु- 560093
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION
CENTRE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
DRDO Complex, CV Raman Nagar, Bengaluru- 560093

Application Form for Internship at CAIR

1.	Application for	<input type="radio"/> Internship	Paste Photograph Here
2.	What is your highest relevant Educational Qualification?	<input type="radio"/> B.Tech./B.E.	
3.	Discipline (Branch)		
4.	Present Semester		
PERSONAL INFORMATION			
a)	Full Name		
b)	D.O.B.		
c)	Aadhaar Number		
d)	Temporary Address		
e)	Permanent Address		
f)	Phone No.		
g)	Email ID		
h)	Father's Name		
i)	Father's Email ID		
j)	Father's Occupation		
k)	Father's mobile no.		
l)	Mother's Name		
m)	Mother's Occupation		
n)	Mother's Mobile No.		
o)	Mother's email id		
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS			
a)	Name of University / Institute		
b)	Semester 1 %		
c)	Semester 2 %		
d)	Semester 3 %		
e)	Semester 4 %		
f)	Semester 5 %		
g)	Semester 6 %		
h)	Semester 7 %		
i)	10 TH Percentage		
j)	12 TH Percentage		
k)	Diploma Percentage (if applicable)		

l)	Other Qualifications	
DECLARATION		
I hereby declare that, the above furnished particulars are correct and no information is suppressed. I understand that if any of the above information is found to be incorrect or some information is suppressed then my candidature is liable to be rejected and I may be subjected to any other action as the Government may deem fit.		
Place		Signature of the Candidate
Date		

- a) Kindly download the above document and email a duly filled-in Application Form only to the email address **ad-hrt.cair@gov.in**, positively **within 15 days after the publication of this advertisement in *.docx** format. Applications received after this date will be **rejected**.
- b) The name of the *.docx file should be your name all in small letters followed by year of birth (yyyy), without any space. For example for a candidate Rahul Kumar who is born in the year 1988, the filename should be: rahulkumar1988.docx
- c) Do not send the scanned copy/*.pdf of the 'Application Form'. This Application Form should only be submitted in *.docx file.
- d) Scanned copies of following documents (if applicable) are required to be attached in the email along with the application form:
- 10th Mark Sheet
 - 12th Mark Sheet
 - Diploma Mark Sheet (if applicable)
 - Semester Mark Sheets of all the completed semesters
 - Character Certificate
 - LOR (Letter of Recommendation) from college head / Principal. The LOR shall clearly mention the **duration** (6 months, from 01 July 2026 to 31 December 2026) for which the student is allowed to be in internship at CAIR, **CGPA/SGPA to Percentage conversion formula** if applicable, **Semester wise percentage scored** by the student for all the completed semesters, **assurance that the student will complete the tenure of 6 months** (01 July 2026 to 31 December 2026) of the Paid Internship at CAIR, Recommendation of candidature etc.
 - CV
 - College ID Card
 - Aadhaar Card
- e) Applications incomplete in any respect are liable to be rejected. No communication will be sent on rejection.
- f) Invitation for Interview if required will be sent only to the short-listed candidates, through email only.
- g) All the original documents and marks sheets will have to be produced at the time of joining.
- h) Selected candidates will have to submit valid Police Verification Certificate at the time of joining.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / **Senior Administrative Officer**
कृते निदेशक / **For Director**